



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 46] नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 12—नवम्बर 18, 2005 (कार्तिक 21, 1927)
No. 46] NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 12—NOVEMBER 18, 2005 (KARTIKA 21, 1927)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 1

[PART III—SECTION 1]

[उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार के
संलग्न और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएँ]

[Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, the Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India]

लघु उद्योग मंत्रालय
विकास आयुक्त (लघु उद्योग) का कार्यालय

नई दिल्ली, दिनांक 19 अक्टूबर 2005

सं. ए-19018/783/85-प्रशा. (राज.)--राष्ट्रपति, लघु उद्योग सेवा संस्थान, लुधियाना में उप निदेशक (यांत्रिकी), श्री कंवलजीत सिंह को लघु उद्योग विकास संगठन अंतर्गत रु. 12,000-375-16,500 के वेतनमान में लघु उद्योग सेवा संस्थान, हल्द्वानी में निदेशक (यांत्रिकी) के पद पर दिनांक 22.09.2005 (पूर्वाह्न) से अगले आदेश जारी होने तक नियुक्त करते हैं।

डी. के. गौतम
उप निदेशक (प्रशा.)

सं. ए-19018/1212/92-प्रशा. (राज.)--राष्ट्रपति, क्षेत्रीय परीक्षण केन्द्र, चैन्नई में उप निदेशक (यांत्रिकी), श्री जी. शनमुगनाथन को लघु उद्योग विकास संगठन अंतर्गत रु. 12,000-375-16,500 के वेतनमान में हस्त औजार डिजाईन, विकास एवं प्रशिक्षण केन्द्र, नागौर (राजस्थान) में

निदेशक (यांत्रिकी) के पद पर दिनांक 21.09.2005 (पूर्वाह्न) से अगले आदेश जारी होने तक नियुक्त करते हैं।

डी. के. गौतम
उप निदेशक (प्रशा.)

परमाणु ऊर्जा विभाग

भारी पानी बोर्ड

मुंबई-400 094, दिनांक 21 अक्टूबर 2005

संदर्भ: भाषाबो/भर्ती/1(53)/2005/1148--राष्ट्रपति, डॉ. प्रदीप रामचन्द्र गोडबोले को दिनांक 03 अगस्त, 2005 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक रु. 8,000-275-13,500 के वेतनमान में वैज्ञानिक अधिकारी/सी (चिकित्सा) के पद पर भारी पानी संयंत्र (तालचर), उड़ीसा में अस्थाई रूप से नियुक्त करते हैं।

एन. जे. सयमन
प्रशासन अधिकारी

संदर्भ: भाषाबो/भर्ती/1(53)/2005/1149--राष्ट्रपति, श्री लैशराम बोयाई
सिंह को दिनांक 03 अगस्त, 2005 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक रु.
8,000-275-13,500 के वेतनमान में वैज्ञानिक अधिकारी/सी

(विश्लेषणात्मक रसायन विज्ञान) के पद पर भारी पानी संयंत्र (तालचेर),
उड़ीसा में अस्थाई रूप से नियुक्त करते हैं।

एन. जे. सयमन
प्रशासन अधिकारी

परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय

हैदराबाद-500016, दिनांक 26 अक्टूबर 2005

सं. ए.एम.डी-4/2/2005-भर्ती/1399--राष्ट्रपति महोदय, परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय, परमाणु ऊर्जा विभाग, हैदराबाद के निम्नलिखित वैज्ञानिक अधिकारियों/इंजीनियरों को दर्शायी गई तारीख से आगामी आदेशों तक इसी निदेशालय में रु. 14,300-400-18,300 के वेतनमान पर वैज्ञानिक अधिकारी/एफ के ग्रेड में स्थानापन्न क्षमता में नियुक्त करते हैं :

क्र. अधिकारी का नाम सं.	वर्तमान ग्रेड	पदोन्नत ग्रेड	धारित स्थायी पद	कार्यभार ग्रहण करने की तारीख
1	2	3	4	5
(श्री/श्रीमती/डॉ.)				6
1. आर. मुरलीधरन	वैज्ञा. अधि.-ई	वैज्ञा. अधि.-एफ	ग्रुप-ए (वैज्ञानिक)	01.08.2005
2. एम. रंगाराजन	वैज्ञा. अधि.-ई	वैज्ञा. अधि.-एफ	ग्रुप-ए (वैज्ञानिक)	01.08.2005
3. पी. के. शर्मा	वैज्ञा. अधि.-ई	वैज्ञा. अधि.-एफ	ग्रुप-ए (वैज्ञानिक)	01.08.2005
4. ए. पी. धुरंधर	वैज्ञा. अधि.-ई	वैज्ञा. अधि.-एफ	ग्रुप-ए (वैज्ञानिक)	01.08.2005
5. श्रीमती के. शोभिता	वैज्ञा. अधि.-ई	वैज्ञा. अधि.-एफ	ग्रुप-ए (वैज्ञानिक)	01.08.2005
6. पी. अल्लिलपीरा	वैज्ञा. अधि.-ई	वैज्ञा. अधि.-एफ	ग्रुप-बी (तकनीकी)	01.08.2005
7. ए. के. पॉल	वैज्ञा. अधि.-ई	वैज्ञा. अधि.-एफ	ग्रुप-ए (वैज्ञानिक)	01.08.2005
8. गया मंडल	वैज्ञा. अधि.-ई	वैज्ञा. अधि.-एफ	ग्रुप-बी (तकनीकी)	01.08.2005
9. पी. के. गुप्ता	वैज्ञा. अधि.-ई	वैज्ञा. अधि.-एफ	ग्रुप-ए (वैज्ञानिक)	01.08.2005
10. रवीन्द्र गुर्जर	वैज्ञा. अधि.-ई	वैज्ञा. अधि.-एफ	ग्रुप-ए (वैज्ञानिक)	01.08.2005
11. एस. के. माथुर	वैज्ञा. अधि.-ई	वैज्ञा. अधि.-एफ	ग्रुप-ए (वैज्ञानिक)	01.08.2005
12. टी. पी. एस. रावत	वैज्ञा. अधि.-ई	वैज्ञा. अधि.-एफ	ग्रुप-ए (वैज्ञानिक)	01.08.2005
13. पी. वी. तिरुपति	वैज्ञा. अधि.-ई	वैज्ञा. अधि.-एफ	ग्रुप-ए (वैज्ञानिक)	01.08.2005
14. अभिनव कुमार	वैज्ञा. अधि.-ई	वैज्ञा. अधि.-एफ	ग्रुप-ए (वैज्ञानिक)	01.08.2005
15. अजय कुमार	वैज्ञा. अधि.-ई	वैज्ञा. अधि.-एफ	ग्रुप-ए (वैज्ञानिक)	01.08.2005
16. एम. बंदोपाध्याय	वैज्ञा. अधि.-ई	वैज्ञा. अधि.-एफ	ग्रुप-ए (वैज्ञानिक)	01.08.2005
17. डॉ. नवीन गोयल	वैज्ञा. अधि.-ई	वैज्ञा. अधि.-एफ	ग्रुप-ए (वैज्ञानिक)	01.08.2005
18. जी. रंगास्वामी	वैज्ञा. अधि.-ई	वैज्ञा. अधि.-एफ	ग्रुप-बी (तकनीकी)	01.08.2005
19. डी. के. चौधरी	वैज्ञा. अधि.-ई	वैज्ञा. अधि.-एफ	ग्रुप-ए (वैज्ञानिक)	01.08.2005
20. सी. एस. के. जैन	वैज्ञा. अधि.-ई	वैज्ञा. अधि.-एफ	ग्रुप-बी (वैज्ञानिक)	01.08.2005
21. बी. जी. प्रकाश	वैज्ञा. अधि.-ई	वैज्ञा. अधि.-एफ	ग्रुप-ए (वैज्ञानिक)	01.08.2005
22. एच. रामसुब्बा राव	वैज्ञा. अधि.-ई	वैज्ञा. अधि.-एफ	ग्रुप-बी (तकनीकी)	01.08.2005

आर. एम. सिन्हा
निदेशक

सं. ए.एम.डी-4/1/2005-भर्ती/1404---राष्ट्रपति महोदय, परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय, परमाणु ऊर्जा विभाग, हैदराबाद के निम्नलिखित वैज्ञानिक अधिकारियों/इंजीनियरों को दर्शायी गई तारीख से आगामी आदेशों तक इसी निदेशालय में प्रत्येक के नाम के आगे उल्लिखित ग्रेड (निम्नतः वर्णित वेतनमान पर) में स्थानापन्न क्षमता में नियुक्त करते हैं :--

क्र. सं.	अधिकारी का नाम	वर्तमान ग्रेड	ग्रेड/वेतनमान में पदोन्नत	धारित स्थायी पद	पदभार ग्रहण करने की तारीख
1	2	3	4	5	6
(श्री/श्रीमती/डॉ.)					
1.	नन्द कुमार कैनिकार	वैज्ञा. अधि./डी	वैज्ञा. अधि./ई रु. 12,000-375-16,500	वैज्ञा. सहा.बी	01.02.2005
2.	डी. सुब्रह्मण्यम्	वैज्ञा. अधि./डी	वैज्ञा. अधि./ई रु. 12,000-375-16,500	ग्रुप-ए (वैज्ञानिक)	01.02.2005
3.	नलिन कुमार जौहरी	वैज्ञा. अधि./डी	वैज्ञा. अधि./ई रु. 12,000-375-16,500	ग्रुप-बी (तकनीकी)	01.02.2005
4.	जी. रंगनाथन	वैज्ञा. अधि./डी	वैज्ञा. अधि./ई रु. 12,000-375-16,500	ग्रुप-बी (तकनीकी)	01.02.2005
5.	वाई. श्रीनिवास	वैज्ञा. अधि./डी	वैज्ञा. अधि./ई रु. 12,000-375-16,500	ग्रुप-बी (तकनीकी)	01.02.2005
6.	बी. वी. एल. कुमार	वैज्ञा. अधि./डी	वैज्ञा. अधि./ई रु. 12,000-375-16,500	ग्रुप-बी (तकनीकी)	01.02.2005
7.	अर्पण मिश्रा	वैज्ञा. अधि./सी	वैज्ञा. अधि./डी रु. 10,000-325-15,200	वैज्ञा. अधि./सी	01.02.2005
8.	वी. कोटेश्वर राव	वैज्ञा. अधि./सी	वैज्ञा. अधि./डी रु. 10,000-325-15,200	ग्रुप-बी (तकनीकी)	01.02.2005
9.	संजय कुमार	वैज्ञा. अधि./सी	वैज्ञा. अधि./डी रु. 10,000-325-15,200	--	01.02.2005
10.	अजित कुमार जैन	वैज्ञा. अधि./सी	वैज्ञा. अधि./डी रु. 10,000-325-15,200	--	01.02.2005
11.	एम. जी. शिंदे	वैज्ञा. सहा./ई	वैज्ञा. अधि./डी रु. 10,000-325-15,200	ग्रुप-सी (तकनीकी)	01.02.2005
12.	कल्पना बहुगुणा	वैज्ञा. अधि./एस.बी.	वैज्ञा. अधि./सी रु. 8,000-275-13,500	ग्रुप-सी (तकनीकी)	01.02.2005
13.	वी. उमा शंकर	वैज्ञा. अधि./एस.बी.	वैज्ञा. अधि./सी रु. 8,000-275-13,500	ग्रुप-सी (तकनीकी)	01.02.2005
14.	राजेश कुमार सिंह	वैज्ञा. अधि./एस.बी.	वैज्ञा. अधि./सी रु. 8,000-275-13,500	वैज्ञा. सहा-बी	01.02.2005

आर. एम. सिन्हा
निदेशक

कम्पनी कार्य मंत्रालय

(कम्पनी कार्य विभाग)

कार्यालय कम्पनी रजिस्ट्रार

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स एच आर एयरकोन प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 28 सितम्बर 2005

सं. 560(5)/एसईएस/2003/55/99848/2170--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि मैसर्स एच आर एयरकोन प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्ट्रार से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

एम. के. बागड़ी

सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार

रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स एन जे कार्पोरेशन सर्विसेस लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 28 सितम्बर 2005

सं. 560(5)/एसईएस/2003/55/54342/2173--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि मैसर्स एन जे कार्पोरेशन सर्विसेस लिमिटेड का नाम आज रजिस्ट्रार से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

एम. के. बागड़ी

सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार

रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स सीज़न ग्रेनाईट्स लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 28 सितम्बर 2005

सं. 560(5)/एसईएस/2003/55/53220/2176--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि मैसर्स सीज़न ग्रेनाईट्स लिमिटेड का नाम आज रजिस्ट्रार से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

एम. के. बागड़ी

सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार

रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स अम्बिका पल्प एण्ड पेपर मिल्स लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 28 सितम्बर 2005

सं. 560(5)/एसईएस/2003/55/7841/2179--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि मैसर्स अम्बिका पल्प एण्ड पेपर मिल्स लिमिटेड का नाम आज रजिस्ट्रार से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

एम. के. बागड़ी

सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार

रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स सहयोग एण्टरप्राइसेज़ प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 28 सितम्बर 2005

सं. 560(5)/एसईएस/2003/55/103908/2268--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि मैसर्स सहयोग एण्टरप्राइसेज़ प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्ट्रार से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

एम. के. बागड़ी

सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार

रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में।

कोलकाता-700020, दिनांक 24 अक्टूबर 2005

सं.क.र./प.बं./आईपीसी/560/फाइल 1/एसईएस 2005--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से 90 (नब्बे) दिनों की समाप्ति तक किसी भी व्यक्ति से किसी भी प्रकार की आपत्ति न होने पर निम्नलिखित कम्पनियों का नाम रजिस्ट्रार से काट दिया जायेगा और ये कम्पनियां विघटित कर दी जाएंगी।

क्र. रजिस्ट्रेशन कम्पनी का नाम

सं. सं.

1

2

3

1. 31554 मै. जे एम डायनेमिक्स प्रा. लि.

2. 95645 मै. ए बी एस बाजार प्रा. लि.

3. 55193 मै. आशुतोष होल्डिंग्स प्रा. लि.

4. 68919 मै. एक्मे वॉयलकॉम प्रा. लि.

5. 37102 मै. एडवांस केमिकल्स (इण्डिया) प्रा. लि.

6. 58952 मै. एड्ड टीड्ड एक्जीम प्रा. लि.

1	2	3			
7.	34736	मै. ऐलसिकॉन (इण्डिया) प्रा. लि.	43.	55608	मै. ब्लूमेक्स एडवर्टाइजिंग प्रा. लि.
8.	38392	मै. एनापोल कंसल्टेन्ट्स प्रा. लि.	44.	28388	मै. बोरनाली केमिकल एण्ड रबड़ वर्क्स प्रा. लि.
9.	77851	मै. अन्ना डेवलोपर्स प्रा. लि.	45.	37842	मै. बोस एण्ड कम्पनी (प्रोजेक्ट्स) प्रा. लि.
10.	80494	मै. अनुपम इन एण्ड मैनेजमेंट सर्विसेज प्रा. लि.	46.	42223	मै. बोस रबड़ प्रा. लि.
11.	28405	मै. एपेक्स ब्राइटस्टील कं. प्रा. लि.	47.	9561	मै. ब्रह्मपुत्र मैच वर्क्स लि.
12.	38846	मै. अपोलो इन्जीनियर्स प्रा. लि.	48.	28030	मै. ब्रह्मो मिशन प्रेस प्रा. लि.
13.	66994	मै. एरिज एग्रो फार्म डेवलोपर्स लि.	49.	91828	मै. ब्राड कास्ट टेलीफिल्म्स प्रा. लि.
14.	31577	मै. अरोरा थर्मल डेवाइसेस प्रा. लि.	50.	76327	मै. बुडेनबर्ग गेज कम्पनी प्रा. लि.
15.	69638	मै. आशापुरा सेकुरिटीज एण्ड फाइनान्स प्रा. लि.	51.	33786	मै. बफेलो डेन्टल मैनुफैक्चरिंग कम्पनी (इण्डिया) लि.
16.	51614	मै. एसएसएम इलेक्ट्रीकल्स प्रा. लि.	52.	41199	मै. कैलकॉन्स प्रोपर्टीज प्रा. लि.
17.	14194	मै. आसाम बेंगाल रिवर सर्विस प्रा. लि.	53.	42018	मै. कलकत्ता सॉफ्ट ड्रिंक प्रा. लि.
18.	12686	मै. आसाम बेंगाल साव मिल्स प्रा. लि.	54.	39529	मै. सीसीबी इम्पेक्स प्रा. लि.
19.	54153	मै. आस्था स्पेयरटेक्स प्रा. लि.	55.	87530	मै. सीडीजी ट्रेडिंग प्रा. लि.
20.	95000	मै. एट्रीयम होटेल्स एण्ड रिसोर्ट प्रा. लि.	56.	44481	मै. सेमसिएट इण्डिया प्रा. लि.
21.	62035	मै. एटीएस सॉफ्टवेयर प्रा. लि.	57.	12790	मै. सेन्ट्रल बेंगाल केमिकल वर्क्स लि.
22.	41302	मै. ऑटो स्पेशियलिटीज प्रा. लि.	58.	19951	मै. सेन्ट्रल गन्नी एक्सपोर्ट्स कम्पनी लि.
23.	38823	मै. ऑटोग्राफ इण्डिया प्रा. लि.	59.	17826	मै. चक्रवर्ती इन्जीनियर्स प्रा. लि.
24.	28635	मै. एवन रबड़ इण्डस्ट्रीज प्रा. लि.	60.	33498	मै. चंदेरिया इन्वेस्टमेंट्स प्रा. लि.
25.	38828	मै. बी.एस. डिस्टीलर्स एण्ड बोटलर्स प्रा. लि.	61.	67941	मै. चंद्रकोना राइस मिल्स प्रा. लि.
26.	37087	मै. बाबी दत्ता कंस्ट्रक्शन प्रा. लि.	62.	81171	मै. चेताली कमर्शियल प्रा. लि.
27.	98375	मै. बासुदेव फार्मा मार्केटिंग प्रा. लि.	63.	47477	मै. चिवास गारमेंट्स प्रा. लि.
28.	33864	मै. बजाज रि-रोलिंग मिल्स प्रा. लि.	64.	41113	मै. चोपड़ा आयल प्रा. लि.
29.	33989	मै. बजाज स्पीनिंग एण्ड वेविंग्स कं. प्रा. लि.	65.	82805	मै. चुगोकु जेन्सन एण्ड निकल्सन प्रा. लि.
30.	82262	मै. बीजी हार्डवेयर एण्ड सॉफ्टवेयर प्रा. लि.	66.	30717	मै. सिफको एण्ड स्टीवार्ट कंसल्टेन्स प्रा. लि.
31.	27123	मै. बिहारीदे केमिकल प्रा. लि.	67.	30500	मै. कम्फोर्ट इण्डिया प्रा. लि.
32.	40668	मै. बिहारीदे ड्रम्स प्रा. लि.	68.	58462	मै. कन्सेप्ट एण्ड फार्म प्रा. लि.
33.	40718	मै. बिहारीदे फूड प्रोडक्ट्स प्रा. लि.	69.	36393	मै. कॉस्मास एसोसियेट्स प्रा. लि.
34.	36956	मै. बेलवेडरे मेडिकेयर लि.	70.	84573	मै. क्रसेन्ट प्रोसेसिंग प्रा. लि.
35.	41011	मै. बेंगाल टूर एण्ड ट्रेवल कम्पनी प्रा. लि.	71.	37378	मै. डी.पी.सी. इन्टरनेशनल प्रा. लि.
36.	96370	मै. बेरी एण्ड कम्पनी प्रा. लि.	72.	58918	मै. डानकुनी वेभर गैस प्रा. लि.
37.	36457	मै. भाग्यकुल प्रोपर्टीज एण्ड इन्वेस्टमेंट प्रा. लि.	73.	77691	मै. दर्शन क्राफ्ट प्रा. लि.
38.	34080	मै. बीबीपुर कोल्ड स्टोरेज एण्ड आइस कम्पनी प्रा. लि.	74.	43174	मै. डाय टी प्रा. लि.
39.	73263	मै. बिहानी एडवर्टाइजिंग प्रा. लि.	75.	63305	मै. डीडीबीपी एक्सप्रेसन प्रा. लि.
40.	73848	मै. बिन्नागुरी ब्रिक इन्डस्ट्रीज प्रा. लि.	76.	89248	मै. दे वेस्ट मारिटाइम प्रा. लि.
41.	41571	मै. बायो फेनटेक्स इण्डिया प्रा. लि.	77.	38182	मै. डेक्यून (इण्डिया) प्रा. लि.
42.	82698	मै. बलूम व्यापार प्रा. लि.	78.	43772	मै. डेल्टा फार्मोलस प्रा. लि.
			79.	37110	मै. डेल्टा ट्रेवल्स प्रा. लि.
			80.	40453	मै. दरबी इन्जीनियरिंग प्रा. लि.

1	2	3	1	2	3
81.	29518	मै. दिनेश चन्द्र मुखर्जी एण्ड कम्पनी (कंटेक्टर्स) प्रा. लि.	116.	37682	मै. गिलमेन डुमेट प्रा. लि.
82.	24859	मै. दीपक कॉर्पोरेशन प्रा. लि.	117.	21178	मै. गोयनका एजेन्सीज लि.
83.	50895	मै. डिस्टाइल एक्सपोर्टर्स (इण्डिया) प्रा. लि.	118.	48976	मै. गोल्डन फुड प्रोडक्ट्स प्रा. लि.
84.	97327	मै. ड्रिमज मल्टीलेबल नेटवर्क प्रा. लि.	119.	40182	मै. गुडइल्लड कंसल्टेन्ट्स प्रा. लि.
85.	88947	मै. डीएसएस मार्केटिंग एण्ड सर्विसेज प्रा. लि.	120.	72303	मै. गोराचन्द कंस्ट्रक्शन प्रा. लि.
86.	31758	मै. डुमेट ड्रग्स मैनुफैक्चरिंग प्रा. लि.	121.	81172	मै. एच आर डी ओरियण्टेशन एण्ड कंसल्टेन्सी प्रा. लि.
87.	57180	मै. दुर्गा रिफ्रेक्टोरिज प्रा. लि.	122.	45334	मै. हॉलमार्क इन्जीनियरिंग इन्टरप्राइज प्रा. लि.
88.	13533	मै. द्वारकादास शाह ब्रदर्स प्रा. लि.	123.	85446	मै. हालसन जूट प्रा. लि.
89.	34040	मै. इस्ट इण्ड गार्डेन्स प्रा. लि.	124.	43331	मै. हेरी एसोसियेट्स प्रा. लि.
90.	28333	मै. ईस्ट इण्डिया एक्सपोर्टर्स (सी फुड) प्रा. लि.	125.	18690	मै. हिन्द शिपर्स प्रा. लि.
91.	44535	मै. ईस्ट जोन ऑटो प्रा. लि.	126.	33076	मै. आइ एस कंट्रोल सिस्टम (डिब) प्रा. लि.
92.	10942	मै. इस्टर्न इन्जीनियरिंग एण्ड ट्रेडिंग कं. प्रा. लि.	127.	83874	मै. आई.सी. अग्रवाल एण्ड कं. प्रा. लि.
93.	33601	मै. ईस्टर्न ऑरगेनिक्स कं. लि.	128.	11439	मै. इण्डिया ब्रश वर्क्स प्रा. लि.
94.	33343	मै. ईस्टर्न प्रोसेस वर्क्स प्रा. लि.	129.	48232	मै. इण्डिया एक्सट्रुसन्स प्रा. लि.
95.	89857	मै. इमामी रेपुन्जेल प्रा. लि.	130.	78456	मै. इन्दीवर मर्चेन्ट्स प्रा. लि.
96.	58997	मै. इमेमजी इकॉनोमिक कंसल्टेन्सी सर्विसेज प्रा. लि.	131.	57276	मै. इन्डो-इजरायल फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स लि.
97.	61912	मै. इमसेज इन्जीनियरिंग प्रा. लि.	132.	94100	मै. इन्जेनियर्स इलेक्ट्रिक कम्पनी प्रा. लि.
98.	40954	मै. इन्डी मैनुफैक्चरिंग एण्ड मार्केटिंग प्रा. लि.	133.	36662	मै. इन्टर आइलैण्ड वाटर ट्रान्सपोर्ट कं. प्रा. लि.
99.	44836	मै. इस्कलेक इन्जीनियर्स प्रा. लि.	134.	61298	मै. इन्टरग्रेटेड ऑटोमेशन एण्ड सिस्टम्स प्रा. लि.
100.	82687	मै. इयुथेनिक आर्टिफैक्ट्स प्रा. लि.	135.	40727	मै. इसाक इलेक्ट्रोनिक्स प्रा. लि.
101.	23127	मै. एक्सेल डिस्ट्रीब्यूटर्स प्रा. लि.	136.	32000	मै. जलान इमैक्स प्रा. लि.
102.	44501	मै. फाल्कॉन ड्रग्स प्रा. लि.	137.	32726	मै. जय जय माइक्रो प्रोडक्ट्स प्रा. लि.
103.	27898	मै. फैलुन्स प्रा. लि.	138.	41924	मै. जय रिसोलसेज प्रा. लि.
104.	93914	मै. फलेता टेक्नोलॉजीज प्रा. लि.	139.	85035	मै. जयन्क लेदर्स एण्ड केमिकल्स प्रा. लि.
105.	35411	मै. फलेक्स-ओ-टेक्स इन्टरनेशनल प्रा. लि.	140.	39841	मै. जोसना कास्टिंग सेन्टर प्रा. लि.
106.	40116	मै. फलोथर्म कंसल्टेन्ट्स प्रा. लि.	141.	94247	मै. जोयिता एण्ड कौशिक मार्केटिंग प्रा. लि.
107.	44228	मै. फ्रान्ट लाइन होल्डिंग्स प्रा. लि.	142.	20897	मै. जूट एण्ड कंट्री प्रोड्यूसज प्रा. लि.
108.	79849	मै. जी डी प्रोपर्टीज एण्ड इन्वेस्टमेंट्स प्रा. लि.	143.	75902	मै. के. कुमार टेक्सटाइल्स प्रा. लि.
109.	32496	मै. जी एम एस इन्जीनियरिंग इन्टरप्राइजेज प्रा. लि.	144.	37723	मै. कालिंगा एसेम्बलर्स प्रा. लि.
110.	42307	मै. जी ए पॉलीकेम (इण्डिया) प्रा. लि.	145.	36647	मै. केनोपी (इण्डिया) प्रा. लि.
111.	63907	मै. गार्डेन कोम्पोजील प्रा. लि.	146.	52326	मै. कासा कंस्ट्रक्शन प्रा. लि.
112.	60375	मै. जी सी बी कमर्शियल प्रा. लि.	147.	26155	मै. कायजस ट्रेडिंग प्रा. लि.
113.	90438	मै. जेनरल टेक्नोलॉजीज (इस्ट) प्रा. लि.	148.	77778	मै. केडीजी डायग्नोस्टिक सेन्टर प्रा. लि.
114.	96907	मै. जेनो हेल्थ केयर सर्विसेज प्रा. लि.	149.	41382	मै. खेत्री एण्ड कम्पनी प्रा. लि.
115.	95986	मै. गेट मोर ग्लोबल प्रा. लि.	150.	40950	मै. खुशबु कॉमर्स प्रा. लि.

1	2	3
151.	43376	मै. क्विबट्ज एण्ड मैकगी प्रा. लि.
152.	58998	मै. कोले कंभर्ट्स एण्ड ट्रेडिंग प्रा. लि.
153.	71852	मै. कुलिक लीजिंग एण्ड फाइनेन्स लि.
154.	65801	मै. कुलिक मेकॉन एग्री लि.
155.	34046	मै. कुलिक पेपर प्रा. लि.
156.	23134	मै. कुण्डू एण्ड सन्स प्रा. लि.
157.	44397	मै. लेजर कंसल्टेन्ट्स प्रा. लि.
158.	43285	मै. लावण्य डिजाइन्स प्रा. लि.
159.	74294	मै. लियोनार्ड प्रोपर्टी प्रा. लि.
160.	82700	मै. लिबर्टी मर्चेन्डाइज प्रा. लि.
161.	33975	मै. लिम्पोजलोन प्रा. लि.
162.	71128	मै. लोपामुद्रा इक्युपमेन्ट्स प्रा. लि.
163.	65571	मै. लुकास प्रेसर गेज कम्पनी प्रा. लि.
164.	40720	मै. मैग्मा एलॉएज प्रा. लि.
165.	89718	मै. महाप्रभू जूट मिल प्रा. लि.
166.	42710	मै. मनशा मंजिल प्रेस एण्ड पब्लिकेशन्स प्रा. लि.
167.	42158	मै. मंगलदीप वाणिज्य उद्योग प्रा. लि.
168.	40685	मै. मनीष पिक्चर्स प्रा. लि.
169.	39111	मै. मंथन ट्रेडिंग कम्पनी प्रा. लि.
170.	41539	मै. मेरिकॉम मैरिन सर्विसेज प्रा. लि.
171.	44044	मै. मैसकॉन हाउसिंग प्रा. लि.
172.	37677	मै. मेटेल्ली टी कम्पनी प्रा. लि.
173.	40661	मै. मैक्सीफलेक्स मशीन टूल्स प्रा. लि.
174.	44731	मै. मिनिकेम प्रा. लि.
175.	65037	मै. मोबर फाइनांशियल सर्विसेज लि.
176.	38933	मै. मार्टन टेक्सटी प्रा. लि.
177.	56566	मै. मोना इन्वेस्टमेन्ट्स प्रा. लि.
178.	52129	मै. मुबारक मर्चेन्डाइज प्रा. लि.
179.	26613	मै. मुरारका डीलर्स एण्ड इन्वेस्टर्स प्रा. लि.
180.	42407	मै. नम्रता वाणिज्य प्रा. लि.
181.	36813	मै. नंदन प्रोपर्टीज प्रा. लि.
182.	12390	मै. नेशनल कोम्मोडिटीज लि.
183.	52057	मै. नटराज ब्लू एण्ड पिगमेंट्स प्रा. लि.
184.	87877	मै. नेहा डेटरजेन्ट्स प्रा. लि.
185.	91449	मै. नेटेश इन्कोटेक लि.

1	2	3
186.	79459	मै. नेटवर्क स्कैन प्रा. लि.
187.	54802	मै. निकोलस माइनिंग प्रा. लि.
188.	62647	मै. निप्पन प्रोपर्टीज प्रा. लि.
189.	49366	मै. निरज ट्रांसपोर्ट ऑरगेनाइजेसन प्रा. लि.
190.	37349	मै. निसान मार्केटिंग एण्ड सर्विसेज प्रा. लि.
191.	29378	मै. नोबिस इण्डिया प्रा. लि.
192.	78467	मै. नोर्टेक कमर्शियल प्रा. लि.
193.	41908	मै. नार्थ बेंगाल कास्टिंग प्रा. लि.
194.	54661	मै. नार्थ बेंगाल पिस्सीकल्चर एण्ड फॉरिस्ट कं. लि.
195.	72914	मै. ओ एम के होल्डिंग्स प्रा. लि.
196.	31506	मै. ओ.एम.के. इंजीनियरिंग वर्क्स प्रा. लि.
197.	94521	मै. ओमकार निर्माण प्रा. लि.
198.	45270	मै. पी के आर (सुप्रिया) ट्रेडिंग प्रा. लि.
199.	99863	मै. पी.सी. चक्रवर्ती एण्ड सन्स (चा) प्रा. लि.
200.	39972	मै. पंचतरणी गृहनिर्माण विनियोग लि.
201.	45724	मै. पंकज पाइप्स प्रा. लि.
202.	40168	मै. पंकज स्टील इन्डस्ट्रीज प्रा. लि.
203.	81076	मै. पारेख होल्डिंग्स प्रा. लि.
204.	40962	मै. पार्कली इलेक्ट्रीकल्स प्रा. लि.
205.	91169	मै. पशुपति ऑटो इण्डिया प्रा. लि.
206.	49897	मै. पाटलीपुत्र पेपर मिल्स प्रा. लि.
207.	88995	मै. पेगासस कंस्ट्रक्शन प्रा. लि.
208.	33933	मै. पेट सप्लाइज लि.
209.	66751	मै. पेटक्राफ्ट प्रा. लि.
210.	42841	मै. फोटोक्स इलेक्ट्रॉनिक्स प्रा. लि.
211.	92236	मै. पायनियर टेलीमिडिया प्रा. लि.
212.	47289	मै. पियुस कंसल्टेन्ट्स प्रा. लि.
213.	55909	मै. पोद्दार एण्ड चटर्जी मेडिकल कम्प्लेक्स प्रा. लि.
214.	46841	मै. पॉलीस्टीलेट (इण्डिया) प्रा. लि.
215.	57709	मै. पोदोमेक होम्स प्रा. लि.
216.	65005	मै. पावरमास्टर एनर्जी डेवलपमेंट प्रा. लि.
217.	71609	मै. प्राइम इन्फोसिस्टेम्स लि.
218.	31371	मै. प्रोफेशनल्स ट्रेडिंग एण्ड इन्वेस्टमेंट प्रा. लि.
219.	49672	मै. प्रोपर लाइफ हाउसिंग डेवलपमेंट एण्ड इन्वेस्टमेंट लि.

1	2	3	1	2	3
220.	18213	मै. पूनम चन्द मोहता लि.	254.	36371	मै. सत्य शिव प्रा. लि.
221.	92956	मै. क्वीक कम्प्यूटर लर्निंग सिस्टेम्स प्रा. लि.	255.	39651	मै. स्कैरिना इलेक्ट्रॉनिक्स प्रा. लि.
222.	4223	मै. आर.एन. बागची एण्ड ब्रदर्स दोबारी कोलियरी प्रा. लि.	256.	55485	मै. साइंटिफिक पोलुशन कंट्रोल एण्ड इक्युपमेंट्स प्रा. लि.
223.	57855	मै. आर.वी. ब्रिग्स एण्ड कम्पनी मिनेरल्स प्रा. लि.	257.	44903	मै. स्कोरपिअन मेडिकेयर कम्पनी प्रा. लि.
224.	35765	मै. राडुला रिबन मैनुफैक्चर्स प्रा. लि.	258.	30902	मै. सेकुरिटी एण्ड सर्विसेज (इण्डिया) प्रा. लि.
225.	91931	मै. रेनबो टेलीफिल्म्स लि.	259.	94107	मै. सेन एण्ड सेन (कोलकाता) पब्लिसर्स प्रा. लि.
226.	50933	मै. राजमाता डिजल प्रा. लि.	260.	32838	मै. शाह एण्ड शाह प्रा. लि.
227.	84617	मै. राज्यवर्धन प्रोपर्टीज प्रा. लि.	261.	7233	मै. शाहा चौधरी एण्ड कम्पनी प्रा. लि.
228.	31071	मै. रंजित फाउण्डर्स एण्ड फैब्रिकेटर्स प्रा. लि.	262.	52023	मै. शाहेराम टेक्सटाइल्स प्रा. लि.
229.	31164	मै. रतन इन्सुलेक्टा प्रा. लि.	263.	13785	मै. शेयरडिलर्स इन्वेस्टर्स एण्ड अन्डरराइटर्स लि.
230.	33691	मै. रिलायंस फिगमेंट्स एण्ड केमिकल्स प्रा. लि.	264.	39115	मै. शौनक बिजनेस प्रा. लि.
231.	34338	मै. रिबु प्रा. लि.	265.	48637	मै. शिप्रा फिस्कल लि.
232.	18882	मै. रिको प्रा. लि.	266.	92578	मै. शिव सॉफ्टसोल प्रा. लि.
233.	83618	मै. रिकॉन ट्रेडर्स प्रा. लि.	267.	27194	मै. अम्बिका इन्वेस्टमेंट कं. प्रा. लि.
234.	30889	मै. रब-ओ-प्लास्ट इण्डस्ट्रीज (जेजी) प्रा. लि.	268.	20829	मै. श्री अनंत केमिकल वर्क्स प्रा. लि.
235.	88591	मै. रनवेल इलेक्ट्रीकल्स प्रा. लि.	269.	38134	मै. श्री बालाजी सेकुरिटी बोल्ड्स प्रा. लि.
236.	19359	मै. रूपचित्रम लि.	270.	43196	मै. क्लोटेक्स प्रा. लि.
237.	32851	मै. रूपेन प्रोपर्टीज प्रा. लि.	271.	89819	मै. श्याम गौरमेट प्रा. लि.
238.	71954	मै. रूपर्ट रिटेलर्स प्रा. लि.	272.	35878	मै. सिन्हा ब्रदर्स (कॉन्ट्रेक्टर्स) प्रा. लि.
239.	50065	मै. एस डी डाय कंसल्टेंट्स प्रा. लि.	273.	25078	मै. सिन्हा घोष एण्ड कम्पनी प्रा. लि.
240.	17835	मै. एस एन बनर्जी एण्ड कम्पनी प्रा. लि.	274.	39837	मै. सिन्थो फार्मा प्रा. लि.
241.	89090	मै. एस आर इन्फोवेयर प्रा. लि.	275.	75319	मै. एसजेसी प्रोपर्टीज लि.
242.	59199	मै. एस. केसवदेव डीलर्स एण्ड ट्रेडर्स प्रा. लि.	276.	60239	मै. सोम इन्जीनियर्स प्रा. लि.
243.	63217	मै. एस.एन. केरोसिन डिस्ट्रीब्यूटर्स प्रा. लि.	277.	91735	मै. स्पेक्ट्रम इन्फोलाइन प्रा. लि.
244.	33380	मै. सहारा केमिकल्स इण्डस्ट्रीज प्रा. लि.	278.	53330	मै. स्पेन्सर बिल्डर्स प्रा. लि.
245.	30803	मै. संतोषी माता फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर्स प्रा. लि.	279.	54805	मै. स्टैन्डर्ड अल्ट्रामेरिन ब्लू एण्ड केमिकल्स प्रा. लि.
246.	87606	मै. सांवर प्रोडक्ट्स मैनुफैक्चरिंग एण्ड मार्केटिंग प्रा. लि.	280.	31474	मै. स्टारप्लास्ट प्रा. लि.
247.	34838	मै. सादरा होजियरी प्रा. लि.	281.	59264	मै. स्टेपान एक्सपोर्ट्स प्रा. लि.
248.	49952	मै. सरमती प्रोपर्टीज प्रा. लि.	282.	33558	मै. सुन्दर पेपर्स प्रा. लि.
249.	39446	मै. सारंगी प्रोपर्टीज प्रा. लि.	283.	41091	मै. सुपर कम्प्युनिकेटर्स प्रा. लि.
250.	54209	मै. सतदल आवास एण्ड हाउसिंग फाइनान्स लि.	284.	59387	मै. सुपर लकरेटिव मल्टीफिन प्रा. लि.
251.	54211	मै. सतदल मैनुफैक्चरिंग एण्ड मार्केटिंग लि.	285.	36878	मै. सुर इनेमेलिंग कम्पनी प्रा. लि.
252.	54210	मै. सतदल नर्सिंग होम एण्ड हेल्थ केयर लि.	286.	41457	मै. सुरेन्द्र रिसोर्सेज प्रा. लि.
253.	90942	मै. सातेनियम ट्रेडेक्स प्रा. लि.	287.	70470	मै. सुन्द्रेड ट्रेडकॉम प्रा. लि.

1	2	3
288.	19329	मै. टैगौर लैण्ड डेवलपमेंट लि.
289.	77201	मै. तरंग इन्फोटेक प्रा. लि.
290.	60139	मै. तेरा मैग्मा प्रा. लि.
291.	44020	मै. ठक्कर ब्रदर्स प्रा. लि.
292.	26569	मै. टाईम्स प्रा. लि.
293.	27901	मै. तिरुपति कॉरपेट लि.
294.	71178	मै. टॉलीपार्क मैनेटेनेन्स प्रा. लि.
295.	24313	मै. टूल्स एण्ड जिम्स प्रा. लि.
296.	88625	मै. उजाला गिल मिल प्रा. लि.
297.	29361	मै. उखड़ा मुद्रण प्रकाशन संगठन प्रा. लि.
298.	27181	मै. यूनिसेल मैनुफैक्चर्स एण्ड एजेन्सीज प्रा. लि.
299.	28367	मै. यूनाइटेड थर्मो इन्सुलेटर्स प्रा. लि.

1	2	3
300.	76185	मै. अरवी निर्माण प्रा. लि.
301.	61927	मै. उषा ओवरसीज प्रा. लि.
302.	27997	मै. उत्कल माइनिंग इन्डस्ट्रीज प्रा. लि.
303.	46901	मै. उत्कल टुनर प्रा. लि.
304.	44712	मै. वरदान डेवलपमेंट्स प्रा. लि.
305.	97473	मै. वेन्वर इन्फोटेक इण्डिया प्रा. लि.
306.	43168	मै. वर्टिकेन इन्जीनियरिंग प्रा. लि.
307.	33170	मै. वृन्दावन कंस्ट्रक्शन प्रा. लि.
308.	65948	मै. वाइका इन्डस्ट्रीयल मेजरमेंट्स प्रा. लि.
309.	93951	मै. वर्थी हाइड्रोलिक्स प्रा. लि.

टी. पी. शर्मा
कम्पनी रजिस्ट्रार
प. बंगाल

MINISTRY OF SMALL SCALE INDUSTRIES
OFFICE OF THE DEVELOPMENT COMMISSIONER
(SMALL SCALE INDUSTRIES)

New Delhi, the 19th October 2005

No. A-19018/783/85-Admn (G).—The President is pleased to appoint Shri Kanwaljit Singh, Deputy Director (Mechanical), Small Industries Service Institute, Ludhiana, as Director (Mechanical) on officiating basis under Small Industry Development Organisation in the pay scale of Rs. 12000-375-16500/- at SISI, Haldwani with effect from the forenoon of 22.9.2005 until further orders.

D. K. GAUTAM
Dy Director (Admn.)

No. A-19018/1212/92-Admn (G).—The President is pleased to appoint Shri G. Shanmuganathan, Deputy Director (Mechanical), RTC Chennai, as Director (Mechanical) on officiating basis under Small Industry Development Organisation in the pay scale of Rs. 12000-375-16500/- at HTDDTC Nagaur (Rajasthan) with effect from the forenoon of 21.9.2005 until further orders.

D. K. GAUTAM
Dy Director (Admn.)

DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY
(HEAVY WATER BOARD)

Mumbai-400 094, the 21st October 2005

No. HWB/R/1(53)/2005/1148.—The President is pleased to appoint Dr. Pradeep Rupchandra Godbole as Scientific Officer/C (Medical) in a temporary capacity in Heavy Water Plant (Talcher), Orissa in the scale of pay of Rs. 8000-275-13500/- with effect from 3rd August, 2005 (FN) until further orders.

N. J. SIMON
Administrative Officer

No. HWB/R/1(53)/2005/1149.—The President is pleased to appoint Shri Laishram Boyai Singh as Scientific Officer/C (Analytical Chemistry) in a temporary capacity in Heavy Water Plant (Talcher), Orissa in the scale of pay of Rs. 8000-275-13500/- with effect from 3rd August, 2005 (FN) until further orders.

N. J. SIMON
Administrative Officer

(ATOMIC MINERALS DIRECTORATE FOR EXPLORATION & RESEARCH)

Hyderabad-500 016, the 26th October 2005

No. AMD-4/2/2005-Rectt/1399.—The President is pleased to appoint the undermentioned Scientific Officers/Engineers of the Atomic Minerals Directorate for Exploration & Research, Department of Atomic Energy, Hyderabad to the grade of Scientific Officer-F carrying the scale of pay of Rs. 14,300-400-18,300/- in the same Directorate in an officiating capacity on the date shown against each, until further orders :

Sl. No.	Name of the Officer	Present grade	Promotion to grade	Substantive post held	Date of assumption of charge
1	2	3	4	5	6
1.	Shri R. Muralidharan	SO/E	SO/F	GRP-A (SCIENT)	01.08.2005
2.	Shri M. Rengarajan	SO/E	SO/F	GRP-A (SCIENT)	01.08.2005
3.	Shri P. K. Sharma	SO/E	SO/F	GRP-A (SCIENT)	01.08.2005
4.	Shri A. P. Dhurandhar	SO/E	SO/F	GRP-A (SCIENT)	01.08.2005
5.	Smt. K. Shobhitha	SO/E	SO/F	GRP-A (SCIENT)	01.08.2005
6.	Shri P. Allipeera	SO/E	SO/F	GRP-B (TECH)	01.08.2005
7.	Shri A. K. Paul	SO/E	SO/F	GRP-A (SCIENT)	01.08.2005
8.	Shri Gaya Mandal	SO/E	SO/F	GRP-B (TECH)	01.08.2005
9.	Shri P. K. Gupta	SO/E	SO/F	GRP-A (SCIENT)	01.08.2005
10.	Shri Ravindra Gurjar	SO/E	SO/F	GRP-A (SCIENT)	01.08.2005

1	2	3	4	5	6
11.	Shri S. K. Mathur	SO/E	SO/F	GRP-A (SCIENT)	01.08.2005
12.	Shri T. P. S. Rawat	SO/E	SO/F	GRP-A (SCIENT)	01.08.2005
13.	Shri P. V. Thirupathi	SO/E	SO/F	GRP-A (SCIENT)	01.08.2005
14.	Shri Abhinav Kumar	SO/E	SO/F	GRP-A (SCIENT)	01.08.2005
15.	Shri Ajay Kumar	SO/E	SO/F	GRP-A (SCIENT)	01.08.2005
16.	Shri M. Bandyopadhyay	SO/E	SO/F	GRP-A (SCIENT)	01.08.2005
17.	Dr. Navin Goyal	SO/E	SO/F	GRP-A (SCIENT)	01.08.2005
18.	Shri G. Rangaswamy	SO/E	SO/F	GRP-B (TECH)	01.08.2005
19.	Shri D. K. Choudhary	SO/E	SO/F	GRP-A (SCIENT)	01.08.2005
20.	Shri C. S. K. Jain	SO/E	SO/F	GRP-A (SCIENT)	01.08.2005
21.	Shri B. G. Prakash	SO/E	SO/F	GRP-A (SCIENT)	01.08.2005
22.	Shri H. Ramasubba Rao	SO/E	SO/F	GRP-B (TECH)	01.08.2005

R. M. SINHA
Director

No. AMD-4/1/2005-Rectt/1404.—The President is pleased to appoint the undermentioned Scientific Officers/Engineers of the Atomic Minerals Directorate for Exploration & Research, Department of Atomic Energy, Hyderabad to the grades mentioned against each (carrying the scale of pay as mentioned thereunder) in the same Directorate in an officiating capacity on the dates shown against them, until further orders :—

Sl. No.	Name of the Officer	Present grade	Promotion to grade/ Scale of pay	Substantive post held	Date of assumption of charge
1	2	3	4	5	6
1.	Shri/Smt./Dr. Nanda Kumar Kainikara	SO-D	SO-E Rs. 12,000-375- 16,500/-	SA-B	01.02.2005
2.	D. Hanumanthappa	SO-D	SO-E Rs. 12,000-375- 16,500/-	GRP-A (SCI)	01.02.2005
3.	Nalin Kumar Johri	SO-D	SO-E Rs. 12,000-375- 16,500/-	GRP-B (TECH)	01.02.2005
4.	G. Jagannadhan	SO-D	SO-E Rs. 12,000-375- 16,500/-	GRP-B (TECH)	01.02.2005
5.	Y. Srinivas	SO-D	SO-E Rs. 12,000-375- 16,500/-	GRP-B (TECH)	01.02.2005
6.	B. V. L. Kumar	SO-D	SO-E Rs. 12,000-375- 16,500/-	GRP-B (TECH)	01.02.2005

1	2	3	4	5	6
7.	Shri/Smt./Dr. Arpan Mishra	SO-C	SO-D Rs. 10,000-325- 15,200/-	SO-C	01.02.2005
8.	V. Koteswara Rao	SO-C	SO-D Rs. 10,000-325- 15,200/-	GRP-B (TECH)	01.02.2005
9.	Sanjay Kumar	SO-C	SO-D Rs. 10,000-325- 15,200/-	—	01.02.2005
10.	Ajit Kumar Jain	SO-C	SO-D Rs. 10,000-325- 15,200/-	—	01.02.2005
11.	M. G. Shinde	SA-E	SO-D Rs. 10,000-325- 15,200/-	GROUP-C (TECH)	01.02.2005
12.	Kalpana Bahuguna	SO-SB	SO-C Rs. 8,000-275 13,500/-	GROUP-C (TECH)	01.02.2005
13.	V. Uma Shankar	SO-SB	SO-C Rs. 8,000-275 13,500/-	GROUP-C (TECH)	01.02.2005
14.	Rajesh Kumar Singh	SO-SB	SO-C Rs. 8,000-275 13,500/-	SA-B	01.02.2005
					R. M. SINHA Director

MINISTRY OF COMPANY AFFAIRS
(DEPARTMENT OF COMPANY AFFAIRS)
OFFICE OF THE REGISTRAR OF COMPANIES

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. H. R. Aircon Private Limited

New Delhi-110 019, the 28th September 2005

No. SES-2003/560(5)55/99848/2170.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. H. R. Aircon Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

M. K. BAGRI
Asstt. Registrar of Companies
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Enjay Corporation Services Limited

New Delhi-110 019, the 28th September 2005

No. SES-2003/560(5)55/54372/2173.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of section 560 of the

Companies Act, 1956 that the name of M/s. Enjay Corporation Services Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

M. K. BAGRI
Asstt. Registrar of Companies
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Seasons Granites Limited

New Delhi-110 019, the 28th September 2005

No. SES-2003/560(5)55/53220/2176.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Seasons Granites Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

M. K. BAGRI
Asstt. Registrar of Companies
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Ambika Pulp & Paper Mills Limited

New Delhi-110 019, the 28th September 2005

No. SES-2003/560(5)55/7841/2179.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Ambika Pulp & Paper Mills Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

M. K. BAGRI
Asstt. Registrar of Companies
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Sahyog Enterprises Private Limited

New Delhi-110 019, the 28th September 2005

No. SES-2003/560(5)55/103908/2268.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Sahyog Enterprises Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

M. K. BAGRI
Asstt. Registrar of Companies
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of the
following Companies

Kolkata, the 24th October 2005

No. ROC/WB/IPC/File-I/560/SES-2005.—Notice is hereby given pursuant to Section 560 (3) of the Companies Act, 1956 that on the expiration of 90 (ninty) days from the date hereof the names of the following companies unless the objection is received from any person(s) will be struck off from the Register and the following Companies will be dissolved :—

Sl. No.	Regn. No.	Name of the Company
1	2	3
1.	31554	M/s. 3 'M' Dynamics Private Limited
2.	95645	M/s. A B S Bazar Private Limited
3.	55193	M/s. Aashutosh Holdings Private Limited
4.	68919	M/s. ACME Voicecom Private Limited

1	2	3
5.	37102	M/s. Advance Chemicals (India) Private Limited
6.	58952	M/s. Aee Tee Exim Private Limited
7.	34736	M/s. Alsicon (India) Private Limited
8.	38392	M/s. Anapol Consultants Private Limited
9.	77851	M/s. Anna Developers Private Limited
10.	80494	M/s. Anupam Inn and Management Services Private Limited
11.	28405	M/s. Apex Brightsteel Co. Private Limited
12.	38846	M/s. Apollo Engineers Private Limited
13.	66994	M/s. Aries Agro Farm Developers Limited
14.	31577	M/s. Arora Thermal Devices Private Limited
15.	69638	M/s. Ashapura Securities and Finance Private Limited
16.	51614	M/s. ASM Electricals Private Limited
17.	14194	M/s. Assam Bengal River Service Private Limited
18.	12686	M/s. Assam Bengal Saw Mills Private Limited
19.	54153	M/s. Astha Sparetex Private Limited
20.	95000	M/s. Atrium Hotels & Resort Private Limited
21.	62035	M/s. ATS Software Private Limited
22.	41302	M/s. Auto Specialities Private Limited
23.	38823	M/s. Autograph India Private Limited
24.	28635	M/s. Avon Rubber Industries Private Limited
25.	38828	M/s. B. S. Distillers & Bottlers Private Limited
26.	37087	M/s. Babi Dutta Construction Private Limited
27.	98375	M/s. Basudeb Pharma Marketing Private Limited
28.	33864	M/s. Bazaz Re-rolling Mills Private Limited
29.	33989	M/s. Bazaz Spinning & Weaving Co. Private Limited
30.	82262	M/s. Beezy Hardware & Software Private Limited
31.	27123	M/s. Beharide Chemical Private Limited
32.	40668	M/s. Beharide Drugs Private Limited

1	2	3	1	2	3
33.	40718	M/s. Beharide Food Products Private Limited	62.	81171	M/s. Chetali Commercial Private Limited
34.	36956	M/s. Belvedere Medicare Limited	63.	47477	M/s. Chivas Garments Private Limited
35.	41011	M/s. Bengal Tour and Travel Company Private Limited	64.	41113	M/s. Chopra Oil Private Limited
36.	96370	M/s. Berry & Company Private Limited	65.	82805	M/s. Chugoku Jenson & Nicholson Private Limited
37.	36457	M/s. Bhagyakul Properties & Investment Private Limited	66.	30717	M/s. Cifco & Stewart Consultants Private Limited
38.	34080	M/s. Bibipur Cold Storage & Ice Co. Private Limited	67.	30500	M/s. Comfort Wear India Private Limited
39.	73263	M/s. Bihani Advertising Private Limited	68.	58462	M/s. Concept & Form Private Limited
40.	31848	M/s. Binnaguri Brick Industries Private Limited	69.	36393	M/s. Cosmos Associates India Private Limited
41.	41571	M/s. Bio Fantex India Private Limited	70.	84573	M/s. Crescent Processing Private Limited
42.	82698	M/s. Bloom Vyapaar Private Limited	71.	37378	M/s. D. P. C. International Private Limited
43.	55608	M/s. Bluemax Advertising Private Limited	72.	58918	M/s. Dankuni Beverages Private Limited
44.	28388	M/s. Bornali Chemical & Rubber Works Private Limited	73.	77691	M/s. Darshan Crafts Private Limited
45.	37842	M/s. Bose & Company (Projects) Private Limited	74.	43174	M/s. Data Tea Private Limited
46.	42223	M/s. Bose Rubber Private Limited	75.	63305	M/s. DDBP Xpression Private Limited
47.	9561	M/s. Brahmaputra Match Works Limited	76.	89248	M/s. De Best Maritime Private Limited
48.	28030	M/s. Brahmo Mission Press Private Limited	77.	38182	M/s. Dectron (India) Private Limited
49.	91828	M/s. Broad Cast Telefilms Private Limited	78.	43772	M/s. Delta Pharmacolab Private Limited
50.	76327	M/s. Budenberg Guage Company Private Limited	79.	37110	M/s. Delta Travels Private Limited
51.	33786	M/s. Buffalo Dental Manufacturing Co. (India) Limited	80.	40453	M/s. Derby Engineering Private Limited
52.	41199	M/s. Calcons Properties Private Limited	81.	29518	M/s. Dinesh Chandra Mukerjee & Co (Contractors) Private Limited
53.	42018	M/s. Calcutta Soft Drinks Private Limited	82.	24859	M/s. Dipak Corpn Private Limited
54.	39529	M/s. CCB Impex Private Limited	83.	50895	M/s. Distyle Exports (India) Private Limited
55.	87530	M/s. CDG Trading Private Limited	84.	97327	M/s. Dreamz Multilevel Network Private Limited
56.	44481	M/s. Cemciat India Private Limited	85.	88947	M/s. DSS Marketing & Services Private Limited
57.	12790	M/s. Central Bengal Chemical Works Limited	86.	31758	M/s. Dumet Drugs Manufacturing Private Limited
58.	19951	M/s. Central Gunny Exports Co. Limited	87.	57180	M/s. Durga Refractories Private Limited
59.	17826	M/s. Chakraborty Engineers Private Limited	88.	13533	M/s. Dwarkadas Shah Brothers Private Limited
60.	33498	M/s. Chanderia Investments Private Limited	89.	34040	M/s. East End Gardens Private Limited
61.	67941	M/s. Chandrakona Rice Mills Private Limited	90.	28228	M/s. East India Exporters (Sea Food) Private Limited
			91.	44535	M/s. East Zone Auto Private Limited
			92.	10942	M/s. Eastern Engineering & Trading Co. Private Limited

1	2	3	1	2	3
93.	33601	M/s. Eastern Organics Co. Limited	123.	85446	M/s. Halson Jute Private Limited
94.	22243	M/s. Eastern Process Works Private Limited	124.	43331	M/s. Hary Associates Private Limited
95.	89857	M/s. Emami Rapunzel Private Limited	125.	18690	M/s. Hind Shippers Private Limited
96.	58997	M/s. Ememji Economic Consultancy Services Private Limited	126.	33076	M/s. I. S. Control System (Div) Private Limited
97.	61912	M/s. Emsen Engineering Private Limited	127.	83874	M/s. I. C. Agarwal & Co. Private Limited
98.	40954	M/s. Endi Manufacturing and Marketing Private Limited	128.	11439	M/s. India Brush Works Private Limited
99.	44836	M/s. Eskelec Engineers Private Limited	129.	48232	M/s. India Extrusions Private Limited
100.	82687	M/s. Euthenic Architects Private Limited	130.	78456	M/s. Indivar Merchants Private Limited
101.	23127	M/s. Excel Distributors Private Limited	131.	57236	M/s. Indo-Isreal Fertilizers and Chemicals Limited
102.	44501	M/s. Falcon Drugs Private Limited	132.	94100	M/s. Ingenious Electric Company Private Limited
103.	27898	M/s. Falloons Private Limited	133.	36662	M/s. Inter Island Water Transports Co. Private Limited
104.	93914	M/s. Fleta Technologies Private Limited	134.	61298	M/s. Integrated Automation & Systems Private Limited
105.	35411	M/s. Flex-O-Tex International Private Limited	135.	40727	M/s. Isaac Electronics Private Limited
106.	40116	M/s. Flothorm Consultants Private Limited	136.	32000	M/s. Jalan Impex Private Limited
107.	44228	M/s. Front Line Holdings Private Limited	137.	32726	M/s. Jay Jay Micro Products Private Limited
108.	79849	M/s. G. D. Properties & Investments Private Limited	138.	41924	M/s. Jay Resources Private Limited
109.	32496	M/s. G. M. S. Engineering Enterprises Private Limited	139.	85035	M/s. Jaynk Leathers and Chemicals Private Limited
110.	42307	M/s. G. A. Polychem (India) Private Limited	140.	39841	M/s. Josna Casting Center Private Limited
111.	63907	M/s. Garden Conmodeal Private Limited	141.	94247	M/s. Joyeeta & Koushik Marketing Private Limited
112.	60375	M/s. Gee Cee Bee Commercial Private Limited	142.	20897	M/s. Jute & Country Produces Private Limited
113.	90438	M/s. General Technologies (East) Private Limited	143.	75902	M/s. K. Kumar Textiles Private Limited
114.	96907	M/s. Geno Health Care Services Private Limited	144.	37723	M/s. Kalinga Assemblers Private Limited
115.	95986	M/s. Get More Global Private Limited	145.	36647	M/s. Kanopy (India) Private Limited
116.	37682	M/s. Gilman Dumet Private Limited	146.	52326	M/s. Kasa Construction Private Limited
117.	21178	M/s. Goenka Agencies Limited	147.	26155	M/s. Kayjay Trading Private Limited
118.	48976	M/s. Golden Food Products Private Limited	148.	77778	M/s. KDG Diagnostic Centre Private Limited
119.	40182	M/s. Good Yield Consultants Private Limited	149.	41382	M/s. Khettry and Company Private Limited
120.	72303	M/s. Gorachand Construction Private Limited	150.	40950	M/s. Khusboo Commerce Private Limited
121.	81172	M/s. H R D Orientation & Consultancy Private Limited	151.	43376	M/s. KIBITZ and MCGEE Private Limited
122.	45334	M/s. Hallmark Engineering Enterprise Private Limited	152.	58998	M/s. Kolay Convertors & Trading Private Limited

1	2	3	1	2	3
153.	71852	M/s. Kulik Leasing & Finance Limited	186.	79459	M/s. Network Scan Private Limited
154.	65801	M/s. Kulik Macon Agro Ltd.	187.	54802	M/s. Nicholas Mining Private Limited
155.	34046	M/s. Kulik Paper Private Limited	188.	62647	M/s. Nippon Properties Private Limited
156.	23134	M/s. Kundu & Sons Private Limited	189.	49366	M/s. Niraj Transport Organisation Private Limited
157.	44397	M/s. Laser Consultants Private Limited	190.	37349	M/s. Nissan Marketing & Services Private Limited
158.	43285	M/s. Lavanya Designs Private Limited	191.	29378	M/s. Nobis India Private Limited
159.	74294	M/s. Leonard Property Private Limited	192.	78467	M/s. Nortek Commercial Private Limited
160.	82700	M/s. Liberty Merchandise Private Limited	193.	41908	M/s. North Bengal Castings Private Limited
161.	33975	M/s. Limpozalon Private Limited	194.	54661	M/s. North Bengal Pisciculture & Forest Company Limited
162.	71128	M/s. Lopamudra Equipments Private Limited	195.	72914	M/s. O. M. K. Holdings Private Limited
163.	65571	M/s. Lucas Pressure Gauge Company Private Limited	196.	31503	M/s. O. M. A. Engineering Works Private Limited
164.	40720	M/s. Magma Alloys Private Limited	197.	94521	M/s. Omkar Nirman Private Limited
165.	89718	M/s. Mahaprabhu Jute Mill Private Limited	198.	45270	M/s. P. K. R. (Supriya) Trading Private Limited
166.	42710	M/s. Manasha Manzil Press and Publications Private Limited	199.	99863	M/s. P. C. Chakravorty & Sons (CHA) Private Limited
167.	42158	M/s. Mangaldeep Vanijya Udyog Private Limited	200.	39972	M/s. Panchtarani Grihanirman Biniyog Limited
168.	40685	M/s. Manish Pictures Private Limited	201.	45724	M/s. Pankaj Pipes Private Limited
169.	39111	M/s. Manthan Trading Co. Private Limited	202.	40168	M/s. Pankaj Steel Industries Private Limited
170.	41539	M/s. Maricom Marine Services Private Limited	203.	81076	M/s. Parekh Holdings Private Limited
171.	44044	M/s. Mascon Housing Private Limited	204.	40962	M/s. Parkli Electricals Private Limited
172.	37677	M/s. Matelli Tea Company Private Limited	205.	91169	M/s. Pashupati Auto India Private Limited
173.	40661	M/s. Maxiflex Machine Tools Private Limited	206.	49897	M/s. Patliputra Paper Mills Private Limited
174.	44731	M/s. Minichem Private Limited	207.	88995	M/s. Pegasus Construction Private Limited
175.	65037	M/s. Mober Financial Services Limited	208.	33933	M/s. Pet Supplies Limited
176.	38933	M/s. Modern Textea Private Limited	209.	66751	M/s. Petkraft Products Private Limited
177.	56566	M/s. Mona Investments Private Limited	210.	42841	M/s. Photox Electronics Private Limited
178.	52129	M/s. Mubarka Merchandise Private Limited	211.	92236	M/s. Pioneer Telemedia Private Limited
179.	26613	M/s. Murarka Dealers & Investors Private Limited	212.	47289	M/s. Piyus Consultants Private Limited
180.	42407	M/s. Namrata Vanijya Private Limited	213.	55909	M/s. Poddar & Chatterjee Medical Complex Private Limited
181.	36813	M/s. Nandan Properties Private Limited	214.	46841	M/s. Polystellate (India) Private Limited
182.	12390	M/s. National Commodities Limited	215.	57709	M/s. Potomac Homes Private Limited
183.	52057	M/s. Natraj Blue & Pigments Private Limited	216.	65005	M/s. Powermaster Energy Development Private Limited
184.	87877	M/s. Neha Detergents Private Limited	217.	71609	M/s. Prime Infosystems Limited
185.	91449	M/s. Netesh Incotech Limited			

1	2	3
218.	31371	M/s. Professional Trading & Investment Private Limited
219.	49672	M/s. Proper Life Housing Development & Investment Limited
220.	18213	M/s. Punam Chand Mohta Limited
221.	92956	M/s. Quick Computer Learning Systems Private Limited
222.	4223	M/s. R. N. Bagchi & Brothers Dobary Colliery Private Limited
223.	57855	M/s. R. V. Briggs & Company Minerals Private Limited
224.	35765	M/s. Radula Ribbon Manufacturer Private Limited
225.	91931	M/s. Rainbow Telefilms Limited
226.	50933	M/s. Rajmata Diesel Private Limited
227.	84617	M/s. Rajyavardhan Properties Private Limited
228.	31071	M/s. Ranjit Founders & Fabricators Private Limited
229.	31164	M/s. Ratan Insulectra Private Limited
230.	33691	M/s. Reliance Pigments & Chemicals Private Limited
231.	34338	M/s. Ribu Private Limited
232.	18882	M/s. Rico Private Limited
233.	83618	M/s. Ricon Traders Private Limited
234.	30889	M/s. Rub-O-Plast Industries (Jayjee) Private Limited
235.	88591	M/s. Runwel Electricals Private Limited
236.	19359	M/s. Rupachitram Limited
237.	32851	M/s. Rupen Properties Private Limited
238.	71954	M/s. Rupert Retailers Private Limited
239.	50065	M/s. S. B. Data Consultants Private Limited
240.	17835	M/s. S. N. Banerjee & Co. Private Limited
241.	89090	M/s. S. R. Infoware Private Limited
242.	59199	M/s. S. Kesavdeo Dealers & Traders Private Limited
243.	63217	M/s. S. N. Kerosene Distributors Private Limited
244.	33380	M/s. Sahara Chemicals Industries Private Limited
245.	30803	M/s. Santoshi Mata Films Distributors Private Limited

1	2	3
246.	87606	M/s. Sanvar Products Mfg & Marketing Private Limited
247.	34838	M/s. Sarada Hosiery Private Limited
248.	49952	M/s. Saramati Properties Private Limited
249.	39446	M/s. Sarawgi Properties Private Limited
250.	54209	M/s. Satadal Abas and Housing Finance Limited
251.	54211	M/s. Satadal Manufacturing & Marketing Limited
252.	54210	M/s. Satadal Nursing Home & Health Care Limited
253.	90942	M/s. Satennium Tradex Private Limited
254.	36371	M/s. Satya Shiv Private Limited
255.	39651	M/s. Scarina Electronics Private Limited
256.	55485	M/s. Scientific Pollution Control & Equipments Private Limited
257.	44903	M/s. Scorpion Medicare Company Private Limited
258.	30902	M/s. Security & Services (India) Private Limited
259.	94107	M/s. Sen and Sen (Kolkata) Publishers Private Limited
260.	32838	M/s. Shah and Shah Private Limited
261.	7233	M/s. Shaha Choudhuri & Co. Private Limited
262.	52023	M/s. Shaheram Textiles Private Limited
263.	13785	M/s. Sharedealers Investors & Underwriters Limited
264.	39115	M/s. Shaunak Business Private Limited
265.	48637	M/s. Shipra Fiscal Limited
266.	92578	M/s. Shiva Softsol Private Limited
267.	27194	M/s. Shree Ambika Investment Co. Private Limited
268.	20829	M/s. Shree Anant Chemical Works Private Limited
269.	38134	M/s. Shree Balaji Security Vaults Private Limited
270.	43196	M/s. Shree Clotex Private Limited
271.	89819	M/s. Shyam Gourmet Private Limited
272.	35878	M/s. Sinha Brothers (Contractors) Private Limited
273.	25078	M/s. Sinha Ghosh & Co. Private Limited

1	2	3	1	2	3
274.	39837	M/s. Sintho Pharma Private Limited	295.	24313	M/s. Tools & Jigs Private Limited
275.	75319	M/s. SIC Properties Limited	296.	88625	M/s. Ujjala Oil Mill Private Limited
276.	60239	M/s. Som Engineers Private Limited	297.	29361	M/s. Ukhra Mudran Prakashan Sangsthan Private Limited
277.	91735	M/s. Spectrum Infoline Private Limited	298.	27181	M/s. Unisale Manufactures & Agencies Private Limited
278.	53330	M/s. Spencer Builders Private Limited	299.	28367	M/s. United Thermo Insulators Private Limited
279.	54805	M/s. Standard Ultramarine Blue & Chemicals Private Limited	300.	76185	M/s. Urvi Nirman Private Limited
280.	31474	M/s. Starplast Private Limited	301.	61927	M/s. Usha Overseas Private Limited
281.	59264	M/s. Stepan Exports Private Limited	302.	27997	M/s. Utkal Mining Industries Private Limited
282.	33558	M/s. Sunder Papers Private Limited	303.	46901	M/s. Utkal Tuner Private Limited
283.	41091	M/s. Super Communicators Private Limited	304.	44712	M/s. Vardhan Developments Private Limited
284.	59387	M/s. Super Lucrative Multifin Private Limited	305.	97473	M/s. Venture Infotek India Private Limited
285.	36878	M/s. Sur Enamelling Comany Private Limited	306.	43168	M/s. Vertican Engineering Private Limited
286.	41457	M/s. Surendra Resources Private Limited	307.	33170	M/s. Vrindaban Construction Private Limited
287.	70470	M/s. Suzh Tradecom Private Limited	308.	65948	M/s. Wika Industrial Measurements Private Limited
288.	19329	M/s. Tagore Land Development Limited	309.	93951	M/s. Worthy Hydraulics Private Limited
289.	77201	M/s. Tarang Infotech Private Limited			
290.	60139	M/s. Terra Magma Private Limited			
291.	44020	M/s. Thakkar Brothers Private Limited			
292.	26569	M/s. Times Private Limited			
293.	27901	M/s. Tirupati Carpet Limited			
294.	71178	M/s. Tollypark Maintenance Private Limited			

T. P. SHAMI
Registrar of Companies,
West Bengal